


योग से... आरोग्य तक



योग गुरु सुनील सिंह

35031



अनुक्रम

1	योग में भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी	11
2	नेत्र ज्योति ही ज़िन्दगी की घुरी है	14
3	योग अपनाएं... सुन्दर, तरोताजा और खूबसूरत चेहरा पाएं	20
4	आहार	26
5	उपवास या रोजा धर्म के साथ निरोग रहने का वैज्ञानिक पहलू भी है	29
6	चिंतन करें चिंता नहीं	31
7	योग और परहेज दमा निवारण में सहायक	37
8	15 दिनों में योग द्वारा खर्राटों से छुटकारा	41
9	कब्ज़ के तीर यौन विकार और बवासीर	46
10	हास्य योग उत्तम स्वास्थ्य की कुँजी	52
11	मधुमेह (डायबिटीज)	54
12	गर्मी की ताप से छुटकारा योग के प्रताप से	59
13	आहट तक नहीं होती चला आता है उच्च रक्त-चाप का रोग	65
14	वज्रोली मुद्रा सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए	70
15	योग से करें माईग्रेन का इलाज	74
16	योग और भोग का मूल भाव मन की सम्पूर्ण एकाग्रता	83
17	अनेक बीमारियों से छुटकारा जल, स्वर, ताली और हास्य योग का सहारा	89
18	आखिर क्या करें 15 करोड़ भारतीय, कमरदर्द की असहनीय पीड़ा में?	94
19	ऑफिस योग	99
20	ताली योग का लाभ, कल्पना से बाहर	106
21	काल का रूप है हृदयरोग	108
22	प्रजनन संस्थान के रोगी में उपयोगी आसन	113
23	पशुओं के जीवन का आहार प्राणियों का प्राण है यह आहार	116